ADMISSION SCHEDULE 2025

स क्र	की जानी वाली कार्यवाही	नवीन तिथियॉ
1.	आवेदकों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार।	01-05-2025 से 31-05-2025
2.	इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना	10-05-2025 से 31-05-2025
3.	कामन रैंक आवेदकों के लॉगिन पर प्रदर्शित की जायेगी	05-06-2025
4.	कामन रैंक में यदि प्राप्तांकों में त्रूटि हो तो सुधार हेतु आवेदको द्वारा ईमेल mpiticounseling2025@gmail.com के माध्यम से सायं 05 बजे तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं संबंधित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।	06-06-2025 से 08-06-2025
5.	प्रथम चयन सूची डिस्प्ले करना। (एसएमएस द्वारा आवेदकों को सूचित करना।)	16-06-2025
6.	प्रथम चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश - आवंटन पत्रों की ऑनलाईन उपलब्धता / आवंटित संस्था में उपस्थिति, मुल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश	18-06-2025 से 20-06-2025
7.	द्वितीय चयन सूची जारी करना, अपग्रेड के साथ	24-06-2025
8.	द्वितीय चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश।	25-06-2025 से 27-06-2025
9.	आवेदकों द्वारा प्रवेश पोर्टल पर आवेदन हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार। इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना/इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में च्वाईस फिलिंग लॉक करने के पूर्व तक त्रुटि सुधार।	28-06-2025 से 06-07-2025
10.	कामन रैंक आवेदकों के लॉगिन पर प्रदर्शित की जावेगी	09-07-2025
11.	कामन रैंक में यदि प्राप्तांकों में त्रूटि हो तो सुधार हेतु आवेदको द्वारा ईमेल mpiticounseling2025@gmail.com के माध्यम से सायं 05 बजे तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं संबंधित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।	10-07-2025 से 12-07-2025
12.	तृतीय चयन सूची जारी करना।	16-07-2025
13.	तृतीय चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश - आवंटन पत्रों की ऑनलाईन उपलब्धता / आवंटित संस्था में उपस्थिति, मुल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश	18-07-2025 से 22-07-2025
14.	चतुर्थ चयन सूची जारी करना, अपग्रेड के साथ	24-07-2025
15.	चतुर्थ चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश।	28-07-2025 से 30-07-2025
16.	ओपन(कन्वर्जन) राउण्ड - म. प्र. राज्य एवम राज्य के बाहर के आवेदकों द्वारा प्रवेश पोर्टल पर आवेदन हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार। इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना / इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार (च्वाईस लॉक करने के पूर्व तक)।	01-08-2025 से 17-08-2025
17.	कामन रैंक आवेदकों के लॉगिन पर प्रदर्शित की जायेगी।	20-08-2025
18.	कामन रैंक में यदि प्राप्तांकों में त्रूटि हो तो सुधार हेतु आवेदको द्वारा ईमेल mpiticounseling2025@gmail.com के माध्यम से सायं 05 बजे तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं संबंधित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।	21-08-2025 से 23-08-2025
19.	पंचम चयन सूची ओपन(कन्वर्जन) राउण्ड समस्त सीटों के कन्वर्जन सहित एवं राज्य के बाहर के आवेदकों को जोड़ते हुए मेरिट सूची जारी करना	25-08-2025
20.	पंचम चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश। सीटों के कन्वर्जन सहित	27-08-2025 से 30-08-2025
21.	संस्थावार/व्यवसायवार रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित करना।	01-09-2025

स क्र	की जानी वाली कार्यवाही	नवीन तिथियॉ
22.	CLC राउंड हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग/त्रुटि सुधार प्रारंभ किया जावेगा। कैंडिडेट स्वेच्छा से अधिकत्तम 05 च्वाईस फिलिंग कर सकेंगे। सीएलसी राउंड हेतु समस्त रजिस्टर्ड कैंडिडेट को च्वाईस फिलिंग करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक करने के पश्चात संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अत: कैंडिडेट को सावधानी पूर्वक आईटीआई/व्यवसाय का चयन करना चाहिए।	02-09-2025 से 06-09-2025
23.	आवेदकों की उपस्थिती दर्ज कराना। संस्था के कार्यालयीन समय (प्रात: 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक) पर आवेदक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिती दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। कैंडिडेट किसी एक आईटीआई की किसी एक ही व्यवसाय के लिए उपस्थिति दर्ज करवा सकेंगे।	09-09-2025
24.	आवेदकों की उपस्थिति के आधार पर मैरिट सूची जारी करना। प्रात: 11 बजे आईटीआई के लॉगिन पर व्यवसायवार मेरिट जारी की जावेगी, जिसे आईटीआई द्वारा सूचना पटल पर भी प्रिंट कर प्रदर्शित किया जावेगा। मेरिट केवल रिक्त सीटों की संख्या अनुसार ही जारी होगी। आवेदकों का दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश, दोपहर 12 बजे से	10-09-2025
25.	यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो, Waiting List के आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश। प्रात: 11 बजे Waiting List को आईटीआई द्वारा सूचना पटल पर भी प्रिंट कर प्रदर्शित किया जावेगा। Waiting List अनुसार उपस्थित आवेदकों के प्रवेश का कार्य दोपहर 02 बजे से किये जावेंगे।	11-09-2025
26.	**“पहले आओ पहले पाओ”** राउण्ड के अंतर्गत संस्थावार/व्यवसायवार रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित करना।	12-09-2025
27.	**“पहले आओ पहले पाओ” राउण्ड** • नवीन रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल प्रारंभ। • कैंडिडेट स्वेच्छा से किसी 01 आईटीआई के किसी 01 ट्रेड की च्वाईस फिलिंग कर सकेंगे। • समस्त रजिस्टर्ड कैंडिडेट को प्रवेश हेतु च्वाईस फिलिंग करना अनिवार्य है। • च्वाईस लॉक करने के पश्चात संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अत: कैंडिडेट को सावधानी पूर्वक आईटीआई/व्यवसाय का चयन करना चाहिए। • च्वाईस फिलिंग करने के पूर्व आईटीआई में व्यवसायवार रिक्त सीटों की संख्या अवश्य जॉच कर लेवें। • कैंडिडेट को प्रवेश के लिए रु.50 का भुगतान कर च्वाईस लॉक करना होगा, तत्पश्चात अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर संबंधित आईटीआई में प्रवेश हेतु समस्त दस्तावेज की मूल प्रति एवं 02 सेट फोटोकॉपी सहित पहुँचकर वेरिफिकेशन उसी दिवस करवाना होगा। • वेरिफिकेशन के पश्चात प्रवेश फीस का भुगतान कर प्रवेश स्लिप प्रिंट कर आईटीआई में जमा करना होगा। • यदि कैंडिडेट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाता है तो उनका अलॉटमेंट संस्था द्वारा अगले कार्यालयीन दिवस में दोपहर 02 बजे के पश्चात निरस्त कर रिक्त सीट अनुसार अन्य आवेदक को प्रवेश दिया जा सकेगा।	13-09-2025 से 20-09-2025

नोट:- उपरोक्त समय सारणी में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

परिशिष्ठ-03

म.प्र. की विभिन्न शासकीय आईटीआई में उपलब्ध छात्रावास की जानकारी

स. क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	जिले का नाम	आईटीआई का नाम	छात्रावास में स्वीकृत सीट (बालक)	छात्रावास में स्वीकृत सीट (बालिका)
1	बालाघाट	बालाघाट	पालडोंगरी	100	--
2	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	120	--
3	बालाघाट	मंडला	निवास	30	--
4	बालाघाट	मंडला	मंडला	84	--
5	बालाघाट	सिवनी	सिवनी	100	--
6	भोपाल	बैतूल	महिला बैतूल	--	120
7	भोपाल	बैतूल	शाहपुर	60	60
8	भोपाल	नर्मदापुरम	संभागीय नर्मदापुरम	120	60
9	भोपाल	नर्मदापुरम	सिवनी मालवा	24	--
10	भोपाल	रायसेन	बेगमगंज	60	60
11	भोपाल	रायसेन	सिलवानी	60	60
12	भोपाल	सीहोर	चकल्दी	60	60
13	भोपाल	सीहोर	बुधनी	120	--
14	भोपाल	सीहोर	महिला सीहोर	--	120
15	ग्वालियर	भिण्ड़	अटेर	20	--
16	ग्वालियर	भिण्ड़	भिण्ड़	120	--
17	ग्वालियर	दतिया	भांडेर	60	60
18	ग्वालियर	ग्वालियर	संभागीय ग्वालियर	120	60
19	ग्वालियर	मुरैना	मुरैना	120	--
20	ग्वालियर	श्योपुर	कराहल	60	60
21	ग्वालियर	शिवपुरी	शिवपुरी	120	--
22	इंदौर	धार	गंधवानी	60	60
23	इंदौर	धार	धामनौद	52	--
24	इंदौर	धार	धार	160	60
25	इंदौर	धार	बाकानेर (उमरबन)	60	60
26	इंदौर	धार	महिला सिंघाना	--	52
27	इंदौर	इंदौर	संभागीय इंदौर	110	60
28	इंदौर	झाबुआ	थांदला	60	60
29	इंदौर	झाबुआ	मेघनगर	60	60
30	इंदौर	अलीराजपुर	भाभरा	60	60
31	इंदौर	बड़वानी	पानसेमल	60	60

स. क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	जिले का नाम	आईटीआई का नाम	छात्रावास में स्वीकृत सीट (बालक)	छात्रावास में स्वीकृत सीट (बालिका)
32	इंदौर	बड़वानी	राजपुर	60	60
33	इंदौर	खरगौन	गोगांवा	60	60
34	इंदौर	खंडवा	खंडवा	80	--
35	इंदौर	खंडवा	नर्मदानगर	180	--
36	जबलपुर	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	60	--
37	जबलपुर	छिंदवाड़ा	पिपलानारायणवार	60	60
38	जबलपुर	छिंदवाड़ा	हर्रई	60	60
39	जबलपुर	डिण्डौरी	डिण्डौरी	120	--
40	जबलपुर	जबलपुर	संभागीय जबलपुर	168	60
41	जबलपुर	कटनी	कटनी	60	60
42	जबलपुर	कटनी	बड़वारा बरही	60	60
43	रीवा	अनूपपुर	बदरा	60	60
44	रीवा	शहड़ोल	गोहपारू	60	60
45	रीवा	शहड़ोल	संभागीय शहडोल	--	60
46	रीवा	उमरिया	उमरिया	60	60
47	रीवा	उमरिया	पाली	60	60
48	रीवा	रीवा	संभागीय रीवा	120	60
49	रीवा	सतना	उचेहरा	60	60
50	रीवा	मैहर	मैहर	60	60
51	रीवा	सिंगरौली	सिंगरौली	100	--
52	रीवा	अनूपपुर	जैतहरी	32	--
53	रीवा	सिंगरौली	सरई	60	--
54	रीवा	सतना	बरौंधा	60	--
55	सागर	छतरपुर	चंदला	60	60
56	सागर	सागर	बंडा	60	60
57	सागर	सागर	संभागीय सागर	120	120
58	उज्जैन	देवास	हाटपिपल्या	60	60
59	उज्जैन	रतलाम	बाजना	60	60
60	उज्जैन	रतलाम	रतलाम	60	--
61	उज्जैन	उज्जैन	संभागीय उज्जैन	72	60

****

GOVT ITI LIST-2025

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
1	BALAGHAT	BALAGHAT	GA23000183	GOVT ITI - PARASWARA, DIST - BALAGHAT
2	BALAGHAT	BALAGHAT	GR23000003	GOVT ITI - BALAGHAT, DIST - BALAGHAT
3	BALAGHAT	BALAGHAT	GR23000067	GOVT ITI - BAIHAR, DIST - BALAGHAT
4	BALAGHAT	BALAGHAT	GR23001094	GOVT ITI - PALDOGRI, DIST - BALAGHAT
5	BALAGHAT	BALAGHAT	GR23001130	GOVT ITI - BIRSA, DIST - BALAGHAT
6	BALAGHAT	BALAGHAT	GU23000068	GOVT ITI - KIRNAPUR, DIST - BALAGHAT
7	BALAGHAT	BALAGHAT	GU23001125	GOVT ITI - MALAJKHAND, DIST - BALAGHAT
8	BALAGHAT	MANDLA	GA23000306	GOVT. ITI MOHGAON
9	BALAGHAT	MANDLA	GA23000307	GOVT. ITI GHUGHRI
10	BALAGHAT	MANDLA	GA23000308	GOVT. ITI MAWAI
11	BALAGHAT	MANDLA	GA23000309	GOVT. ITI NARAYANGANJ
12	BALAGHAT	MANDLA	GA23000310	GOVT. ITI BIJADANDI
13	BALAGHAT	MANDLA	GR23000033	GOVT ITI - MANDLA, DIST - MANDLA
14	BALAGHAT	MANDLA	GR23000087	GOVT ITI - NAINPUR, DIST - MANDLA
15	BALAGHAT	MANDLA	GU23000069	GOVT ITI - NIWAS, DIST - MANDLA
16	BALAGHAT	SEONI	GA23000200	GOVT. ITI DHANORA, DIST. SEONI
17	BALAGHAT	SEONI	GR23000071	GOVT ITI - KURRAI, DIST - SEONI
18	BALAGHAT	SEONI	GR23000126	GOVT ITI - BARGHAT, DIST - SEONI
19	BALAGHAT	SEONI	GR23000127	GOVT ITI - CHHAPARA, DIST - SEONI
20	BALAGHAT	SEONI	GR23000128	GOVT ITI - KEOLARI, DIST - SEONI
21	BALAGHAT	SEONI	GR23000253	GOVT ITI - SEONI, DIST - SEONI
22	BALAGHAT	SEONI	GR23001142	GOVT ITI - LAKHNADAUN, DIST - SEONI
23	BALAGHAT	SEONI	GU23000072	GOVT ITI - GHANSAUR, DIST - SEONI
24	BHOPAL	BETUL	GA23000311	GOVT. ITI PRABHAT PATTAN
25	BHOPAL	BETUL	GR23000019	GOVT WOMEN ITI - BETUL, DIST - BETUL
26	BHOPAL	BETUL	GR23000150	GOVT ITI - CHINCHOLI, DIST - BETUL
27	BHOPAL	BETUL	GR23001164	GOVT ITI - BHIMPUR, DIST - BETUL
28	BHOPAL	BETUL	GR23001170	GOVT ITI - SHAHPUR, DIST - BETUL
29	BHOPAL	BETUL	GU23000063	GOVT ITI - BETUL, DIST - BETUL

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
30	BHOPAL	BHOPAL	GR23000005	Divisional ITI Bhopal
31	BHOPAL	BHOPAL	GR23001114	GOVT ITI - BAIRASIA, DIST - BHOPAL
32	BHOPAL	HARDA	GR23000271	GOVT ITI - TIMARNI (RAHATGAON), DIST - HARDA
33	BHOPAL	HARDA	GR23000284	GOVT ITI - HARDA, DIST - HARDA
34	BHOPAL	NARMADAPURAM	GA23000170	GOVT ITI, BABAI, DIST - HOSHANGABAD
35	BHOPAL	NARMADAPURAM	GR23000062	GOVT ITI - ITARSI, DIST - HOSHANGABAD
36	BHOPAL	NARMADAPURAM	GR23000270	GOVT ITI - SEONI MALWA, DIST - HOSHANGABAD
37	BHOPAL	NARMADAPURAM	GR23001095	GOVT ITI - PIPARIYA, DIST - HOSHANGABAD
38	BHOPAL	NARMADAPURAM	GR23001096	GOVT ITI - SOHAGPUR, DIST - HOSHANGABAD
39	BHOPAL	NARMADAPURAM	GU23000001	Divisional ITI Hoshangabad
40	BHOPAL	RAISEN	GA23000014	GOVT ITI - BEGAMGANJ, DIST - RAISEN
41	BHOPAL	RAISEN	GA23000015	GOVT ITI - SILVANI, DIST - RAISEN
42	BHOPAL	RAISEN	GA23000184	GOVT ITI - GAIRATGANJ, DIST - RAISEN
43	BHOPAL	RAISEN	GR23000064	GOVT ITI - DEORI, DIST - RAISEN
44	BHOPAL	RAISEN	GR23000139	GOVT ITI - MANDIDEEP, DIST - RAISEN
45	BHOPAL	RAISEN	GU23000065	GOVT ITI - RAISEN, DIST - RAISEN
46	BHOPAL	RAJGARH	GA23000171	GOVT ITI - JEERAPUR, DIST - RAJGARH
47	BHOPAL	RAJGARH	GR23000146	GOVT ITI - BIOARA, DIST - RAJGARH
48	BHOPAL	RAJGARH	GR23000267	GOVT ITI - NARSINGHGARH, DIST - RAJGARH
49	BHOPAL	RAJGARH	GR23001171	GOVT ITI - RAJGARH, DIST - RAJGARH
50	BHOPAL	RAJGARH	GR23001177	GOVT ITI - KHUJNER, DIST - RAJGARH
51	BHOPAL	RAJGARH	GU23000066	GOVT ITI - KHILCHIPUR, DIST - RAJGARH
52	BHOPAL	SEHORE	GR23000075	GOVT ITI - NASRULLAGANJ, DIST - SEHORE

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
53	BHOPAL	SEHORE	GR23000084	GOVT ITI - BUDHNI, DIST - SEHORE
54	BHOPAL	SEHORE	GR23000258	GOVT ITI - SEHORE, DIST - SEHORE
55	BHOPAL	SEHORE	GR23001097	GOVT ITI - SHAHGANJ, DIST - SEHORE
56	BHOPAL	SEHORE	GR23001136	GOVT ITI - CHAKLDI, DIST - SEHORE
57	BHOPAL	VIDISHA	GA23000201	GOVT. ITI GYARASPUR, DIST. VIDISHA
58	BHOPAL	VIDISHA	GA23000202	GOVT. ITI KURWAI, DIST. VIDISHA
59	BHOPAL	VIDISHA	GA23000203	GOVT. ITI NATERAN, DIST. VIDISHA
60	BHOPAL	VIDISHA	GR23000257	GOVT ITI - VIDISHA, DIST - VIDISHA
61	BHOPAL	VIDISHA	GR23001106	GOVT ITI - LATERI, DIST - VIDISHA
62	BHOPAL	VIDISHA	GR23001107	GOVT ITI - GANJBASODA, DIST - VIDISHA
63	BHOPAL	VIDISHA	GR23001131	GOVT ITI - SIRONJ, DIST - VIDISHA
64	GWALIOR	ASHOK NAGAR	GA23000206	GOVT. ITI MUNGAOLI DIST. ASHOKNAGAR
65	GWALIOR	ASHOK NAGAR	GU23000024	GOVT ITI - ASHOKNAGAR, DIST - ASHOKNAGAR
66	GWALIOR	BHIND	GA23000163	GOVT ITI - MEHGAON, DIST - BHIND
67	GWALIOR	BHIND	GR23000247	Divisional ITI Bhind
68	GWALIOR	BHIND	GR23000274	GOVT ITI - LAHAR, DIST - BHIND
69	GWALIOR	BHIND	GU23000061	GOVT ITI - ATER, DIST - BHIND
70	GWALIOR	DATIA	GA23000164	GOVT ITI, INDERGARH, DIST - DATIA
71	GWALIOR	DATIA	GA23000165	GOVT ITI, SEVADA, DIST - DATIA
72	GWALIOR	DATIA	GR23000008	GOVT ITI - DATIA, DIST - DATIA
73	GWALIOR	DATIA	GR23001129	GOVT ITI - BHANDER, DIST - DATIA
74	GWALIOR	GUNA	GA23000024	GOVT ITI - CHACHODA, DIST - GUNA
75	GWALIOR	GUNA	GA23000026	GOVT ITI - KUMBHRAJ, DIST - GUNA
76	GWALIOR	GUNA	GA23000204	GOVT. ITI BAMORI, DIST. GUNA
77	GWALIOR	GUNA	GR23000260	GOVT ITI - RAGHOGARH, DIST - GUNA
78	GWALIOR	GUNA	GU23001103	GOVT ITI - GUNA, DIST - GUNA
79	GWALIOR	GWALIOR	GR23000010	Divisional ITI Gwalior
80	GWALIOR	MORENA	GA23000205	GOVT. ITI PAHADGARH, DIST. MORENA
81	GWALIOR	MORENA	GR23000034	GOVT ITI - MORENA, DIST - MORENA

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
82	GWALIOR	MORENA	GR23000273	GOVT ITI - SABALGARH, DIST - MORENA
83	GWALIOR	SHEOPUR	GR23001135	GOVT ITI - KARAHAL, DIST - SHEOPUR
84	GWALIOR	SHEOPUR	GU23001139	GOVT ITI - SHEOPUR, DIST - SHEOPUR
85	GWALIOR	SHEOPUR	GU23001166	GOVT ITI - VIJAIPUR, DIST - SHEOPUR
86	GWALIOR	SHIVPURI	GR23000242	GOVT ITI - SHIVPURI, DIST - SHIVPURI
87	GWALIOR	SHIVPURI	GR23001101	GOVT ITI - POHARI, DIST - SHIVPURI
88	GWALIOR	SHIVPURI	GR23001102	GOVT ITI - KOLARAS, DIST - SHIVPURI
89	GWALIOR	SHIVPURI	GR23001115	GOVT ITI - KHANIDHANA, DIST - SHIVPURI
90	GWALIOR	SHIVPURI	GR23001126	GOVT ITI - BADARWAS, DIST - SHIVPURI
91	GWALIOR	SHIVPURI	GR23001167	GOVT ITI - PECHORE, DIST - SHIVPURI
92	INDORE	ALIRAJPUR	GA23000035	GOVT ITI - BHAWARA, DIST - ALIRAJPUR
93	INDORE	ALIRAJPUR	GA23000207	GOVT. ITI KATTHIWADA, DIST. ALIRAJPUR
94	INDORE	ALIRAJPUR	GA23000208	GOVT. ITI UDAYGARH, DIST. ALIRAJPUR
95	INDORE	ALIRAJPUR	GR23000057	GOVT ITI - JOBAT, DIST - ALIRAJPUR
96	INDORE	ALIRAJPUR	GU23000276	GOVT ITI - ALIRAJPUR, DIST - ALIRAJPUR
97	INDORE	BARWANI	GA23000038	GOVT ITI - PANSEMAL, DIST - BARWANI
98	INDORE	BARWANI	GA23000040	GOVT ITI - RAJPUR, DIST - BARWANI
99	INDORE	BARWANI	GR23000152	GOVT ITI - NEWALI, DIST - BARWANI
100	INDORE	BARWANI	GR23001140	GOVT ITI - PATI, DIST - BARWANI
101	INDORE	BARWANI	GU23001147	GOVT ITI - BARWANI, DIST - BARWANI
102	INDORE	BURHANPUR	GR23000052	GOVT ITI - NEPANAGAR, DIST - BURHANPUR

Sr No.	**ZONE**	**DISTRICT**	**MISCODE**	**ITI NAME**
103	INDORE	BURHANPUR	GR23000155	GOVT ITI - KHAKNAR, DIST - BURHANPUR
104	INDORE	BURHANPUR	GU23001165	GOVT ITI - BURHANPUR, DIST - BURHANPUR
105	INDORE	DHAR	GA23000312	GOVT. ITI TIRLA
106	INDORE	DHAR	GA23000313	GOVT. ITI NISARPUR
107	INDORE	DHAR	GA23000314	GOVT. ITI BAAG
108	INDORE	DHAR	GA23000044	GOVT ITI - BAKANER (UMARBAN), DIST - DHAR
109	INDORE	DHAR	GA23000045	GOVT ITI - DAHI, DIST - DHAR
110	INDORE	DHAR	GA23000047	GOVT ITI - GANDHWANI, DIST - DHAR
111	INDORE	DHAR	GA23000305	GOVT. ITI TILGARA, TEHSIL, BADNAWAR, DIST. DHAR
112	INDORE	DHAR	GR23000007	GOVT ITI - DHAMNOD, DIST - DHAR
113	INDORE	DHAR	GR23000056	GOVT WOMEN ITI - SINGHANA, DIST - DHAR
114	INDORE	DHAR	GR23000268	GOVT ITI - KUKSHI, DIST - DHAR
115	INDORE	DHAR	GR23001108	GOVT ITI - PITHAMPUR, DIST - DHAR
116	INDORE	DHAR	GU23001149	GOVT ITI - DHAR, DIST - DHAR
117	INDORE	INDORE	GA23000209	GOVT. ITI SANWER, DIST. INDORE
118	INDORE	INDORE	GR23000082	Divisional ITI Indore
119	INDORE	INDORE	GR23000116	GOVT ITI - MANPUR, DIST - INDORE
120	INDORE	JHABUA	GA23000053	GOVT ITI - MEGHNAGAR, DIST - JHABUA
121	INDORE	JHABUA	GA23000055	GOVT ITI - THANDLA, DIST - JHABUA
122	INDORE	JHABUA	GR23001104	GOVT ITI - BAMANIA, DIST - JHABUA
123	INDORE	JHABUA	GU23000053	GOVT ITI - JHABUA, DIST - JHABUA
124	INDORE	KHANDWA	GA23000210	GOVT. ITI PANDHANA, DIST. KHANDWA
125	INDORE	KHANDWA	GR23000018	GOVT ITI - NARMADANAGAR, DIST - KHANDWA
126	INDORE	KHANDWA	GR23000141	GOVT WOMEN ITI - KHANDWA, DIST - KHANDWA
127	INDORE	KHANDWA	GR23001105	GOVT ITI - MOONDI, DIST - KHANDWA
128	INDORE	KHANDWA	GR23001145	GOVT ITI - KILLOD, DIST - KHANDWA

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
129	INDORE	KHANDWA	GR23001148	GOVT ITI - KHEDI BLOCK KHALWA, DIST - KHANDWA
130	INDORE	KHANDWA	GU23000248	GOVT ITI - KHANDWA, DIST - KHANDWA
131	INDORE	KHARGONE	GA23000060	GOVT ITI - BHIKANGAON, DIST - KHARGONE
132	INDORE	KHARGONE	GA23000061	GOVT ITI - GOGAWAN, DIST - KHARGONE
133	INDORE	KHARGONE	GA23000211	GOVT. ITI SEGAON, DIST. KHARGONE
134	INDORE	KHARGONE	GA23000223	GOVT. ITI BARWAHA, DIST. KHARGONE
135	INDORE	KHARGONE	GR23000055	GOVT ITI - MANDLESHWAR, DIST - KHARGONE
136	INDORE	KHARGONE	GR23001143	GOVT ITI - ZIRANYA, DIST - KHARGONE
137	INDORE	KHARGONE	GR23001144	GOVT ITI - KARHI, DIST - KHARGONE
138	INDORE	KHARGONE	GR23001172	GOVT ITI - BHAGWANPURA, DIST - KHARGONE
139	INDORE	KHARGONE	GU23000054	GOVT ITI - Khargone, DIST - KHARGONE
140	INDORE	KHARGONE	GU23001128	GOVT ITI - KASRAWAD, DIST - KHARGONE
141	JABALPUR	CHHINDWARA	GA23000316	GOVT. ITI TAMIYA
142	JABALPUR	PANDHURNA	GA23000067	GOVT ITI - PIPLANARAYANWAR, DIST - CHHINDWARA
143	JABALPUR	CHHINDWARA	GA23000166	GOVT ITI, AMARWARA, DIST - CHHINDWARA
144	JABALPUR	CHHINDWARA	GA23000167	GOVT ITI, BICHUA, DIST - CHHINDWARA
145	JABALPUR	CHHINDWARA	GR23000027	GOVT TRIBAL ITI - CHHINDWARA, DIST - CHHINDWARA
146	JABALPUR	CHHINDWARA	GR23000251	GOVT ITI - CHHINDWARA, DIST - CHHINDWARA
147	JABALPUR	CHHINDWARA	GR23000261	GOVT WOMEN ITI - CHHINDWARA, DIST - CHHINDWARA

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
148	JABALPUR	PANDHURNA	GU23000070	GOVT ITI - PANDHURNA, DIST - CHHINDWARA
149	JABALPUR	CHHINDWARA	GU23001122	GOVT ITI - HARRAI, DIST - CHHINDWARA
150	JABALPUR	CHHINDWARA	GU23001162	GOVT ITI - JUNNARDEO, DIST - CHHINDWARA
151	JABALPUR	DINDORI	GA23000317	GOVT. ITI AMARPUR
152	JABALPUR	DINDORI	GA23000318	GOVT. ITI KARANJIYA
153	JABALPUR	DINDORI	GA23000319	GOVT. ITI SAMNAPUR
154	JABALPUR	DINDORI	GA23000320	GOVT. ITI BAJAG
155	JABALPUR	DINDORI	GA23000321	GOVT. ITI MEHADWANI
156	JABALPUR	DINDORI	GR23000002	GOVT ITI - SHAHPURA, DIST - DINDORI
157	JABALPUR	DINDORI	GU23001087	GOVT ITI - DINDORI, DIST - DINDORI
158	JABALPUR	JABALPUR	GA23000212	GOVT. ITI KUNDAM, DIST. JABALPUR
159	JABALPUR	JABALPUR	GA23000300	GOVT. ITI SIHORA, DIST. JABALPUR
160	JABALPUR	JABALPUR	GR23000011	Divisional ITI Jabalpur
161	JABALPUR	JABALPUR	GR23000135	GOVT ITI - SHAHPURA, DIST - JABALPUR
162	JABALPUR	JABALPUR	GU23000077	GOVT ITI - BARGI, DIST - JABALPUR
163	JABALPUR	JABALPUR	GU23000078	GOVT ITI - MAJHOLI, DIST - JABALPUR
164	JABALPUR	JABALPUR	GU23001086	GOVT ITI - PATAN, DIST - JABALPUR
165	JABALPUR	KATNI	GA23000168	GOVT ITI, DHIMARKHEDA, DIST - KATNI
166	JABALPUR	KATNI	GA23000213	GOVT. ITI RITHI, DIST. KATNI
167	JABALPUR	KATNI	GA23000301	GOVT. ITI KEMOR, DIST. KATNI
168	JABALPUR	KATNI	GR23000088	GOVT ITI - BAHORIBAND, DIST - KATNI
169	JABALPUR	KATNI	GR23000255	GOVT ITI - KATNI, DIST - KATNI
170	JABALPUR	KATNI	GU23000079	GOVT ITI - VIJAYRAGHOGARH, DIST - KATNI
171	JABALPUR	KATNI	GU23001138	GOVT ITI - BARHI, DIST - KATNI
172	JABALPUR	Narsimhapur	GA23000315	GOVT. ITI BABAI-CHICHLI
173	JABALPUR	Narsimhapur	GR23000083	GOVT ITI - GADARWARA, DIST - NARSINGHPUR

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
174	JABALPUR	Narsimhapur	GR23001134	GOVT ITI - TENDUKHEDA, DIST - NARSINGHPUR
175	JABALPUR	Narsimhapur	GU23000073	GOVT ITI - NARSINGHPUR, DIST - NARSINGHPUR
176	JABALPUR	Narsimhapur	GU23000074	GOVT ITI - GOTEGAON, DIST - NARSINGHPUR
177	REWA	SIDHI	GA23000322	GOVT. ITI SINHWAL
178	REWA	ANUPPUR	GA23000072	GOVT ITI - BADRA, DIST - ANUPPUR
179	REWA	ANUPPUR	GA23000172	GOVT ITI, NIGWANI, DIST - ANUPPUR
180	REWA	ANUPPUR	GR23000109	GOVT ITI - JAITHARI, DIST - ANUPPUR
181	REWA	ANUPPUR	GR23000115	GOVT ITI - BAINIBARI, DIST - ANUPPUR
182	REWA	ANUPPUR	GR23000283	GOVT ITI - KOTMA, DIST - ANUPPUR
183	REWA	ANUPPUR	GU23000017	GOVT ITI - ANUPPUR, DIST - ANUPPUR
184	REWA	REWA	GA23000173	GOVT ITI, SIRMAUR, DIST - REWA
185	REWA	REWA	GA23000214	GOVT. ITI HANUMANA, DIST. REWA
186	REWA	REWA	GA23000215	GOVT. ITI NAIGARHI, DIST. REWA
187	REWA	REWA	GR23000025	GOVT ITI - MANGANWA, DIST - REWA
188	REWA	REWA	GR23000090	Divisional ITI Rewa
189	REWA	REWA	GR23001124	GOVT ITI - MAOGANJ, DIST - REWA
190	REWA	SATNA	GA23000174	GOVT ITI - BARODHA, DIST - SATNA
191	REWA	SATNA	GA23000216	GOVT. ITI NAGOD, DIST. SATNA
192	REWA	SATNA	GA23000217	GOVT. ITI RAMPUR BAGHELAN, DIST. SATNA
193	REWA	SATNA	GR23000252	GOVT ITI - SATNA, DIST - SATNA
194	REWA	SATNA	GR23000275	GOVT ITI - MAIHAR, DIST - SATNA
195	REWA	SATNA	GR23001093	GOVT ITI - AMARPATAN, DIST - SATNA
196	REWA	SATNA	GR23001154	GOVT ITI - Birsinghpur DIST - SATNA
197	REWA	SATNA	GU23000059	GOVT ITI - NEW RAMNAGAR, DIST - SATNA
198	REWA	SATNA	GU23001179	GOVT ITI - UCHEHRA, DIST - SATNA
199	REWA	SHAHDOL	GR23000246	Divisional ITI Shahdol

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
200	REWA	SHAHDOL	GR23001157	GOVT ITI - JAI SINGH NAGAR, DIST - SHAHDOL
201	REWA	SHAHDOL	GR23001158	GOVT ITI - JAITPUR, DIST - SHAHDOL
202	REWA	SHAHDOL	GU23001098	GOVT ITI - GOHPARU, DIST - SHAHDOL
203	REWA	SIDHI	GA23000083	GOVT ITI - MAJHAULI, DIST - SIDHI
204	REWA	SIDHI	GA23000304	GOVT. ITI RAMPUR NAIKIN, DIST. SIDHI
205	REWA	SIDHI	GR23000142	GOVT ITI - SIDHI, DIST - SIDHI
206	REWA	SIDHI	GR23001100	GOVT ITI - KUSMI, DIST - SIDHI
207	REWA	SINGRAULI	GA23000182	GOVT ITI, SARAI, DIST - SINGRAULI
208	REWA	SINGRAULI	GA23000185	GOVT ITI - CHITRANGI, DIST - SINGROULI
209	REWA	SINGRAULI	GR23001155	GOVT ITI - BARGWA, DIST - SINGROULI (MP)
210	REWA	SINGRAULI	GR23001156	GOVT ITI - DEVSAR, DIST - SINGROULI
211	REWA	SINGRAULI	GU23000060	GOVT ITI - SINGROULI (VAIDHAN), DIST - SINGROULI
212	REWA	UMARIA	GA23000089	GOVT ITI - PALI, DIST - UMARIA
213	REWA	UMARIA	GA23000175	GOVT ITI, CHANDIA, DIST - UMARIA
214	REWA	UMARIA	GR23001099	GOVT ITI - KOHKA, DIST - UMARIA
215	REWA	UMARIA	GU23000058	GOVT ITI - UMARIA, DIST - UMARIA
216	SAGAR	SAGAR	GA23000323	GOVT. ITI KESLI
217	SAGAR	CHHATARPUR	GA23000091	GOVT ITI - CHANDLA, DIST - CHHATARPUR
218	SAGAR	CHHATARPUR	GA23000186	GOVT ITI - BAKASWAHA, DIST - CHHATARPUR
219	SAGAR	CHHATARPUR	GA23000302	GOVT. ITI BIJAWAR, DIST. CHHATARPUR
220	SAGAR	CHHATARPUR	GR23001160	GOVT ITI - BADA MALHARA, DIST - CHHATARPUR
221	SAGAR	CHHATARPUR	GU23000006	GOVT ITI - CHHATARPUR, DIST - CHHATARPUR
222	SAGAR	DAMOH	GA23000176	GOVT ITI, BATIYAGARH, DIST - DAMOH
223	SAGAR	DAMOH	GA23000181	GOVT ITI, PATHARIA, DIST - DAMOH

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
224	SAGAR	DAMOH	GR23000081	GOVT ITI - DAMOH, DIST - DAMOH
225	SAGAR	DAMOH	GR23001161	GOVT ITI - NOHTA, DIST - DAMOH
226	SAGAR	DAMOH	GR23001163	GOVT ITI - PATERA, DIST - DAMOH
227	SAGAR	PANNA	GA23000218	GOVT. ITI SHAHNAGAR, DIST. PANNA
228	SAGAR	PANNA	GR23000035	GOVT ITI - PANNA, DIST - PANNA
229	SAGAR	PANNA	GR23000145	GOVT ITI - MOHENDRA, DIST - PANNA
230	SAGAR	PANNA	GR23000156	GOVT ITI - GUNNOR, DIST - PANNA
231	SAGAR	SAGAR	GA23000095	GOVT ITI - BANDA, DIST - SAGAR
232	SAGAR	SAGAR	GA23000177	GOVT ITI, Jarua Kheda, DIST - SAGAR
233	SAGAR	SAGAR	GA23000178	GOVT ITI, MALATHON, DIST - SAGAR
234	SAGAR	SAGAR	GA23000179	GOVT ITI, RAHATGARH, DIST - SAGAR
235	SAGAR	SAGAR	GA23000180	GOVT ITI, SHAHGARH, DIST - SAGAR
236	SAGAR	SAGAR	GR23000016	Divisional ITI Sagar
237	SAGAR	SAGAR	GR23000144	GOVT ITI - BEENA, DIST - SAGAR
238	SAGAR	SAGAR	GR23001174	GOVT ITI - DEORI, DIST - SAGAR
239	SAGAR	SAGAR	GU23001159	GOVT ITI - RAHALI, DIST - SAGAR
240	SAGAR	NIWARI	GA23000100	GOVT ITI - ORCHHA, DIST - TIKAMGARH
241	SAGAR	TIKAMGARH	GA23000219	GOVT. ITI PALERA, DIST. TIKAMGARH
242	SAGAR	NIWARI	GA23000303	GOVT. ITI JERON, TEHSIL-PRITHVIPUR, DIST. NIWARI
243	SAGAR	NIWARI	GR23000143	GOVT ITI - PRITHVIPUR, DIST - TIKAMGARH
244	SAGAR	TIKAMGARH	GR23000259	GOVT ITI - TIKAMGARH, DIST - TIKAMGARH
245	SAGAR	TIKAMGARH	GU23001152	GOVT ITI - BALDEVGARH, DIST - TIKAMGARH
246	UJJAIN	AGAR MALWA	GA23000326	GOVT. ITI BADOD
247	UJJAIN	AGAR MALWA	GA23000220	GOVT. ITI NALKHEDA, DIST. AGAR MALWA
248	UJJAIN	AGAR MALWA	GU23001132	GOVT ITI - SUSNER, DIST - Agar Malwa
249	UJJAIN	DEWAS	GA23000324	GOVT. ITI SONKATCH

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
250	UJJAIN	DEWAS	GR23000009	GOVT ITI - DEWAS, DIST - DEWAS
251	UJJAIN	DEWAS	GR23000085	GOVT ITI - TONKKHURD, DIST - DEWAS
252	UJJAIN	DEWAS	GR23001168	GOVT ITI - KANTAFOD, DIST - DEWAS
253	UJJAIN	DEWAS	GU23001176	GOVT ITI - KANNAUD, DIST - DEWAS
254	UJJAIN	MANDSAUR	GA23000106	GOVT ITI - MALHARGARH, DIST - MANDSAUR
255	UJJAIN	MANDSAUR	GR23000048	GOVT ITI - BHANPURA, DIST - MANDSAUR
256	UJJAIN	MANDSAUR	GR23000049	GOVT ITI - SITAMAU, DIST - MANDSAUR
257	UJJAIN	MANDSAUR	GR23000265	GOVT ITI - MANDSAUR, DIST - MANDSAUR
258	UJJAIN	MANDSAUR	GR23000282	GOVT ITI - SHAMGARH, DIST - MANDSAUR
259	UJJAIN	MANDSAUR	GR23001113	GOVT ITI - GAROTH, DIST - MANDSAUR
260	UJJAIN	NEEMUCH	GR23000029	GOVT ITI - MANASA, DIST - NEEMUCH
261	UJJAIN	NEEMUCH	GR23000050	GOVT ITI - NEEMACH, DIST - NEEMUCH
262	UJJAIN	NEEMUCH	GR23000051	GOVT ITI - JAVAD, DIST - NEEMUCH
263	UJJAIN	NEEMUCH	GR23000080	GOVT ITI - RAMPURA, DIST - NEEMUCH
264	UJJAIN	RATLAM	GA23000221	GOVT. ITI JAWRA, DIST. RATLAM
265	UJJAIN	RATLAM	GA23000222	GOVT. ITI PIPLODA, DIST. RATLAM
266	UJJAIN	RATLAM	GR23000020	GOVT WOMEN ITI - RATLAM, DIST - RATLAM
267	UJJAIN	RATLAM	GR23000030	GOVT ITI - RATLAM, DIST - RATLAM
268	UJJAIN	RATLAM	GR23000086	GOVT ITI - ALOT, DIST - RATLAM
269	UJJAIN	RATLAM	GR23000272	GOVT ITI - SAILANA, DIST - RATLAM
270	UJJAIN	RATLAM	GR23001169	GOVT ITI - BAJNA, DIST - RATLAM
271	UJJAIN	Shajapur	GA23000325	GOVT. ITI MOMAN BADODIYA
272	UJJAIN	SHAJAPUR	GA23000161	GOVT ITI - KALAPIPAL, DIST - SHAJAPUR
273	UJJAIN	SHAJAPUR	GR23000036	GOVT ITI - SHAJAPUR, DIST - SHAJAPUR

Sr No.	ZONE	DISTRICT	MISCODE	ITI NAME
274	UJJAIN	SHAJAPUR	GR23001141	GOVT ITI - SHUJALPUR, DIST - SHAJAPUR
275	UJJAIN	UJJAIN	GA23000327	GOVT. ITI GHATIYA
276	UJJAIN	UJJAIN	GA23000162	GOVT ITI - TARANA, DIST - UJJAIN
277	UJJAIN	UJJAIN	GR23000106	GOVT ITI - BADNAGAR, DIST - UJJAIN
278	UJJAIN	UJJAIN	GR23000222	GOVT ITI - MAHIDPUR, DIST - UJJAIN
279	UJJAIN	UJJAIN	GR23000256	Divisional ITI Ujjain
280	UJJAIN	UJJAIN	GR23001137	GOVT ITI - KHACHROD, DIST - UJJAIN

परिशिष्ठ-02

म.प्र. की आईटीआई में छात्रवृत्ति की जानकारी

स.क्र.	छात्रवृत्ति का नाम	विवरण	प्रवेश वर्ष 2025-26 में छात्रवृति राशि
01	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति (PMS)- शासकीय एवं निजी आईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों हेतु	पिछड़ा वर्ग (non creamy layer) (OBC) प्रशिक्षणार्थियों= (प्रवेशित वर्ष का प्रशिक्षण शुल्क+ प्रवेशित वर्ष का परीक्षा शुल्क+2300/-) प्रति वर्ष यह छात्रवृति पिछडा वर्ग विभाग द्वारा सीधे प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में दी जाती है	छात्रवृति=(प्रशिक्षण शुल्क+ परीक्षा शुल्क + stipend) =(5340+500+2300)=8140/- प्रति वर्ष
		अनुसूचित जाति (SC) प्रशिक्षणार्थियों= (प्रवेशित वर्ष का प्रशिक्षण शुल्क + प्रवेशित वर्ष का परीक्षा शुल्क+ 2500/-) प्रति वर्ष यह छात्रवृति अनुसूचित जाति कार्य विभाग द्वारा सीधे प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में दी जाती है	छात्रवृति=(प्रशिक्षण शुल्क+ परीक्षा शुल्क + stipend)=(5340+500+2500)=8340/- प्रति वर्ष
		अनुसूचित जनजाति (ST) प्रशिक्षणार्थियों =(प्रवेशित वर्ष का प्रशिक्षण शुल्क + प्रवेशित वर्ष का परीक्षा शुल्क+3000/-) प्रति वर्ष यह छात्रवृति जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सीधे प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में दी जाती है	छात्रवृति=(प्रशिक्षण शुल्क+ परीक्षा शुल्क + stipend)=(5340+500+3000)=8840/- प्रति वर्ष
02	मेरिट छात्रवृति- शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों हेतु	प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत संस्था स्तर पर मेरिट टेस्ट आयोजित करते हुए टेस्ट में पास हुए 4% प्रशिक्षणार्थियों (केवल शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों) को मेरिट छात्रवृत्ति राशि रूपये 125/- प्रतिमाह की दर से प्रदाय की जाती है।	125/- प्रतिमाह की दर से प्रदाय की जाती है
03	दिव्यांग छात्रवृति- शासकीय एवं निजी आईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों हेतु	इसके अंतर्गत प्रदेश की शासकीय एवं निजी औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित दिव्यांगों प्रशिक्षणार्थी(जिनकी दिव्यंगता 40% से अधिक हो) को इसका लाभ दिया जाता है। इस छात्रवृत्ति हेतु बजट सामजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिया जाता है	मूक बधिर एवं दृष्टि बाधित हेतु छात्रवृति की न्यूनतम राशि लगभग= (maintenance allowance+disability allowance+book allowance)/- प्रति वर्ष=(5500+4000+1500)=11000/- प्रति वर्ष
			अन्य दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों हेतु छात्रवृति की न्यूनतम राशि लगभग= maintenance allowance+disability allowance+book allowance)/- प्रति वर्ष =(5500+2000+1500)=9000/-प्रति वर्ष
04	मुख्य मंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन/संबल) योजना(mmjky)- शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों हेतु	म.प्र. के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की सन्तान (जिनके माता पिता का संबल कार्ड/भवन सहनिर्माण कर्मकार मंडल कार्ड है) को नि: शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत केवल शासकीय आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों को इसका लाभ दिया जाता है। इस योजना में लाभार्थी को आईटीआई में प्रवेश लेने के उपरांत आईटीआई द्वारा प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शुल्क वापस किया जाता है।	2025-26 के लिए प्रशिक्षण शुल्क वापस=5340/-प्रति वर्ष

****

परिशिष्ट-एक

विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए 10वीं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण की अवधि की जानकारी

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
1.	ADVANCED CNC MACHINING TECHNICIAN	24	1001	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
2.	AGRO PROCESSING	24	402	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
3.	ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN	24	990	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
4.	ATTENDANT OPERATOR (CHEMICAL PLANT)	24	406	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
5.	Catering & Hospitality Assistant	20	415	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
6.	CIVIL ENGINEER ASSISTANT	24	416	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
7.	COMPUTER HARDWARE & NETWORK MAINTENANCE	24	418	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	नॉन-इंजीनियरिंग
8.	COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT (VI)	12	420	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
9.	COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT	24	421	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
10.	COSMETOLOGY	24	409	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
11.	CRAFTSMAN FOOD PRODUCTION (VEGETARIAN)	20	423	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
12.	DAIRYING	24	993	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
13.	DATA ENTRY OPERATOR	24	428	06 माह	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
14.	DESK TOP PUBLISHING OPERATOR	24	431	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
15.	DIGITAL PHOTOGRAPHER	20	433	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
16.	DRAUGHTSMAN (CIVIL)	24	991	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
17.	DRAUGHTSMAN (MECHANICAL)	24	439	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
18.	DRONE TECHNICIAN	24	1021	01 Sem	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ अथवा समकक्ष एवं 12वीं कक्षा के लिए NIOS के माध्यम से निरंतर नियमित स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहें हों।	नॉन-इंजीनियरिंग
19.	EARLY CHILDHOOD EDUCATOR	24	986	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
20.	ELECTRICIAN	20	442	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
21.	ELECTRONICS MECHANIC	24	446	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
22.	FASHION DESIGN & TECHNOLOGY	20	449	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
23.	FIRE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT	24	451	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
24.	FITTER	20	453	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
25.	FLORICULTURE & LANDSCAPING	24	455	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
26.	Food & Beverages Services Assistant	24	456	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
27.	FOOD PRODUCTION (GENERAL)	24	458	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
28.	FOUNDRYMAN	24	460	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
29.	Front Office Assistant	24	461	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
30.	FRUIT AND VEGETABLE PROCESSOR	24	462	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	नॉन-इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
31.	HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT	24	466	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
32.	HEALTH SANITARY INSPECTOR	24	467	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
33.	HORTICULTURE	24	468	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
34.	HOSPITAL HOUSE KEEPING	24	470	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
35.	HOUSE KEEPER	24	471	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
36.	HUMAN RESOURCE EXECUTIVE	24	472	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
37.	INDUSTRIAL PAINTER	24	473	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
38.	INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTENANCE	24	474	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
39.	INSTRUMENT MECHANIC	24	477	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
40.	INTERIOR DESIGN & DECORATION	24	481	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
41.	INTERNET OF THINGS (SMART CITY)	24	965	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	नॉन-इंजीनियरिंग
42.	LABORATORY ASSISTANT (CHEMICAL PLANT)	20	485	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
43.	LITHO-OFFSET MACHINE MINDER	20	492	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
44.	MACHINIST	20	493	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
45.	MACHINIST (GRINDER)	20	494	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
46.	MARKETING EXECUTIVE	24	498	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
47.	MECHANIC (MOTOR VEHICLE)	24	502	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
48.	MECHANIC (TRACTOR)	20	504	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
49.	MECHANIC AUTO BODY PAINTING	20	507	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
50.	MECHANIC AUTO BODY REPAIR	20	508	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
51.	MECHANIC COMPUTER HARDWARE	24	511	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
52.	MECHANIC DIESEL	24	515	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
53.	MECHANIC ELECTRIC VEHICLE	24	1002	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
54.	MILK & MILK PRODUCT TECHNICIAN	24	994	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
55.	OFFICE ASSITANT CUM COMPUTER OPERATOR	24	532	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
56.	OPERATOR ADVANCED MACHINE TOOLS	24	535	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
57.	PHYSIOTHERAPY TECHNICIAN	20	540	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
58.	PLATE MAKER-CUM-IMPOSITOR	24	542	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
59.	REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN	24	998	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
60.	SHEET METAL WORKER	20	555	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
61.	SMALL HYDRO POWER PLANT TECHNICIAN	20	2028	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
62.	SMARTPHONE TECHNICIAN CUM APP TESTER	24	1013	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
63.	SOLAR TECHNICIAN (ELECTRICAL)	20	561	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
64.	SPA THERAPY	24	562	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
65.	STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH)	24	564	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
66.	STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (HINDI)	24	565	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
67.	SURVEYOR	24	970	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
68.	TECHNICIAN MECHATRONICS	24	570	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
69.	TECHNICIAN MEDICAL ELECTRONICS	24	995	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
70.	TOOL AND DIE MAKER (DIE AND MODULES)	24	574	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
71.	TRAVEL & TOUR ASSISTANT	24	577	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
72.	TURNER	20	578	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उतीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग

विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए 08वीं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण की अवधि की जानकारी

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
73.	DRESS MAKING	20	440	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	नॉन-इंजीनियरिंग
74.	MASON (BUILDING CONSTRUCTOR)	24	499	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	इंजीनियरिंग
75.	PAINTER GENERAL	20	536	दो वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	इंजीनियरिंग
76.	Plumber	24	543	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	इंजीनियरिंग
77.	SEWING TECHNOLOGY (CUTTING & TAILORING)	20	554	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	नॉन-इंजीनियरिंग
78.	Weaving Technician for Silk & Woolen Fabrics	20	582	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	नॉन-इंजीनियरिंग

79.	Welder	20	969	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	इंजीनियरिंग
80.	Welder (Fabrication & Fitting)	20	586	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	इंजीनियरिंग
81.	Wireman	20	592	दो वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	इंजीनियरिंग
82.	WOOD WORK TECHNICIAN (CARPENTER)	24	1020	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उतीर्ण	इंजीनियरिंग

****

मुख्य ध्यान देनें योग्य जानकारी:-

1. आईटीआई में प्रवेश हेतु विभाग के पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर प्रवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
2. रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व पोर्टल पर उपलब्ध Tutorial को अवश्य देख लेवें तथा निम्न जानकारियों को भी अवश्य पढ़ लेवें।
3. अभ्यर्थी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन का फार्म शासकीय/प्रायवेट आईटीआई के लिए सामान होगा।
4. अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु पोर्टल शुल्क रूपये 65/- देना होगा, जिसमें से रूपये 15/- पंजीयन के समय तथा रूपये 50/- च्वाईस (विकल्प) लॉक (LOCK) करते समय देने होंगे। अभ्यर्थी यदि पंजीयन त्रुटि सुधार अथवा प्राथमिकताओं के चयन में त्रुटि सुधार करना चाहता हैं, तो पोर्टल शुल्क राशि रू. 08.50/- देना होगा । इसी प्रकार यदि आवेदक नवीन च्वाईस फिलिंग करना चाहेंगे, तो उन्हें च्वाईस के विकल्प देने के लिए पुनः राशि रू. 50/- देना होंगे।
5. प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण की अवधि मे प्रतिदिन पांच घण्टे प्रायोगिक एवं ढाई घंटे सैद्धांतिक कक्षाएं लगती हैं। शैक्षणिक स्कूल/कालेजों की तरह इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा कोई लंबी अवधि के अवकाश नहीं होते हैं।
6. प्रशिक्षण शुल्क - रू. 5340/- एवं परीक्षा फीस - रु.500/- नियमित प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रति वर्ष है। इसके अतिरिक्त कॉशनमनी - रु.250/- (Onetime) देय है।
7. अभ्यर्थी को शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रशिक्षण शुल्क तथा वेबसाईट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिन्ट आउट संपूर्ण दस्तावेज की छायाप्रति के दो सेट एवं दो फोटोग्राफ लेकर संबंधित आईटीआई में स्वंय उपस्थित होना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे - 08वीं/10वीं उत्तीर्ण मार्कशीट/प्रमाण पत्र, म.प्र. का मूल निवासी/स्थानीय/वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र, स्थाई जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी (आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी के लिये)-केवल डीजीटल सर्टिफिकेट मान्य होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण-पत्र, समग्र आईडी एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म भरने में किसी भी समस्या हेतु पोर्टल पर दिए गए Customer Care के नंबर 9220407724, 9220407725, 9220407726 (10:30AM to 05:30PM) पर अथवा ईमेल (mpiticounseling2025@gmail.com) पर संपर्क करें।

****

योजना
पोर्टल

Yojna Portal

YOJNA PORTAL

www.YojnaPortal.com

Thank You !

Reminder: Stay informed by regularly checking the official website.